

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 603]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 28, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)—462011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1518.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23, सन् 1956) की धारा 22 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिक निगम, ग्वालियर, जिला ग्वालियर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति महापौर / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिक निगम का नाम जिल का नाम सहित	पद अर्थात् महापौर/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिक निगम, ग्वालियर, जिला ग्वालियर.	महापौर	-	-	विवेक नारायण शेजवलकर	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	जगत सिंह कौरव (मुन्ना सर)	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	शशी शर्मा	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	श्रीमती मन्जू दिग्विजय सिंह राजपूत	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	गौरी रिन्कू परमार	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	कु. शिल्पा मेहरबान सिंह	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	हेतराम	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	नगरपालिक निगम, ग्वालियर, जिला ग्वालियर.	पार्षद	7	सात	डॉ. दयाराम पाल	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	श्रीमती सीमा धर्मवीर राठौर	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	विकास जैन (टोनी)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	जयसिंह सोलंकी	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	जगदीश पटेल	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	कृष्णराव दीक्षित (कल्लू दीक्षित)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	धर्मेन्द्र सिंह (गुड्डू तोमर)	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	विनोद यादव माटू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	ऊषा गोस्वामी	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी).
17		पार्षद	16	सोलह	राजकुमारी संतोष भारती	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	अनीता जगराम सिंह	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अठारह	जवर सिंह	भारतीय जनता पार्टी
20		पार्षद	19	उन्नीस	बलबीर सिंह तोमर	भारतीय जनता पार्टी
21		पार्षद	20	बीस	भूपेन्द्र मोगनिया	निर्दलीय
22		पार्षद	21	इक्कीस	चतुर्भुज धनौलिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
23		पार्षद	22	बाईस	सोमवती पोहपसिंह	भारतीय जनता पार्टी
24		पार्षद	23	तेईस	मीना शिवराम जाटव	भारतीय जनता पार्टी
25		पार्षद	24	चौबीस	दिनेश दीक्षित	भारतीय जनता पार्टी
26		पार्षद	25	पच्चीस	सपना सुजीत नरवरिया	भारतीय जनता पार्टी
27		पार्षद	26	छब्बीस	धर्मेन्द्र राणा	भारतीय जनता पार्टी
28		पार्षद	27	सत्ताईस	ब्रजेश गुप्ता	निर्दलीय
29		पार्षद	28	अट्ठाईस	पुरुषोत्तम टमोटिया	भारतीय जनता पार्टी
30		पार्षद	29	उन्तीस	रामबेटी मेहताब सिंह	भारतीय जनता पार्टी
31		पार्षद	30	तीस	रानी उर्फ ऊषा यादव	भारतीय जनता पार्टी
32		पार्षद	31	इकतीस	राजेश सिंह भदौरिया 'राजू'	इंडियन नेशनल कांग्रेस
33		पार्षद	32	बत्तीस	अनीता राजेन्द्र शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
34		पार्षद	33	तैंतीस	चन्दू सेन (चन्दा)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
35		पार्षद	34	चौतीस	ज्योति रवि तोमर	भारतीय जनता पार्टी
36		पार्षद	35	पैंतीस	रेखा दुबे	निर्दलीय
37		पार्षद	36	छत्तीस	खेमचन्द गुरवानी	भारतीय जनता पार्टी
38		पार्षद	37	सैंतीस	मुकेश परिहार	भारतीय जनता पार्टी
39		पार्षद	38	अड़तीस	राकेश माहौर	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40	नगरपालिक निगम, ग्वालियर, जिला ग्वालियर.	पार्षद	39	उन्तालीस	गंगा अलवेलसिंह घुरैया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
41		पार्षद	40	चालीस	धर्मेन्द्रसिंह कुशवाह एडवोकेट	भारतीय जनता पार्टी
42		पार्षद	41	इकतालीस	उपासना संजयसिंह यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
43		पार्षद	42	बयालीस	बाबा गंगाराम बघेल	भारतीय जनता पार्टी
44		पार्षद	43	तैंतालीस	पूनम मुन्नेश भैया	भारतीय जनता पार्टी
45		पार्षद	44	चौवालीस	बाबूलाल चौरसिया	अखिल भारत हिन्दू महासभा.
46		पार्षद	45	पैंतालीस	डॉ. शोभा सिंह सिकरवार	भारतीय जनता पार्टी
47		पार्षद	46	छियालीस	घनश्यामदास गुप्ता (नेता जी)	निर्दलीय
48		पार्षद	47	सैंतालीस	गीता-राजेन्द्र सिंह दण्डोतिया	भारतीय जनता पार्टी
49		पार्षद	48	अड़तालीस	सतीश बोहरे	भारतीय जनता पार्टी
50		पार्षद	49	उनन्चास	श्रीमती गीता मान सिंह कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
51		पार्षद	50	पचास	वन्दना-अजय अरोरा	भारतीय जनता पार्टी
52		पार्षद	51	इक्यावन	हरीपाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
53		पार्षद	52	बावन	सुजीत सिंह भदौरिया (दददा)	भारतीय जनता पार्टी
54		पार्षद	53	तिरेपन	खुशबू गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
55		पार्षद	54	चौवन	श्रीमती नीलिमा शिन्दे	भारतीय जनता पार्टी
56		पार्षद	55	पचपन	तबस्सुम इरफान बेग	इंडियन नेशनल कांग्रेस
57		पार्षद	56	छप्पन	सतीश सिंह सिकरवार	भारतीय जनता पार्टी
58		पार्षद	57	सत्तावन	श्रीमती निधि अवधेश कौरव	भारतीय जनता पार्टी
59		पार्षद	58	अट्ठावन	वन्दना सतीश यादव	भारतीय जनता पार्टी
60		पार्षद	59	उनसठ	करूणा स्वंत्र सक्सेना	भारतीय जनता पार्टी
61		पार्षद	60	साठ	श्रीमती ज्योती धाकड	भारतीय जनता पार्टी
62		पार्षद	61	इकसठ	पवन देवी पूरन सिंह	भारतीय जनता पार्टी
63		पार्षद	62	बासठ	नरेन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
64		पार्षद	63	तिरसठ	सुनीता दिनेश लोधी	निर्दलीय
65		पार्षद	64	चौंसठ	श्रीमती अनुशुईया सिंह	भारतीय जनता पार्टी
66		पार्षद	65	पैंसठ	श्रीमती गीता भूपेन्द्र सिंह कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
67		पार्षद	66	छियासठ	केशव	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1519.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 22 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिक निगम, खण्डवा, जिला खण्डवा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति महापौर / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगरपालिक निगम का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् महापौर/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1	नगरपालिक निगम, खंडवा, जिला खंडवा.	महापौर	-	-	-	सुभाष कोठारी	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक		सुनीता प्रकाश यादव	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो		ममता राज तिवारी	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन		नीलिमा विजय भालेराव	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार		राहुल सुरेन्द्र नाथ	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच		सीमा रामसिंह रावत	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः		बलराम वर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात		मनीष पाटिल (कप्तान)	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ		प्रमिला ऐतालकर	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ		ओम प्रकाश सिलावट	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस		चंदाबाई सोनकर (चंदा दीदी)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह		सफीया परवीन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह		अहमद पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह		मो. इकबाल कुरैशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह		नूरजहाँ बेगम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह		जया सुनिल हाथमोड़े	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह		हज्जन जरीना बी शौकत काका	इंडियन नेशनल कांग्रेस
18		पार्षद	17	सत्रह		सोमनाथ केशव प्रसाद काले (बंडू भैया)	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अठारह		सुनील जैन	भारतीय जनता पार्टी
20		पार्षद	19	उन्नीस		मेहमूद खान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
21		पार्षद	20	बीस		दिनेश पालीवाल	भारतीय जनता पार्टी
22		पार्षद	21	इक्कीस		नितिश लखनलाल बजाज	भारतीय जनता पार्टी
23		पार्षद	22	बाईस		प्रियंका अभिलाष दीवान	भारतीय जनता पार्टी
24		पार्षद	23	तेईस		वहिदा बी ईस्माईल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
25		पार्षद	24	चौबीस		संगीता अजय सिंह	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26	नगरपालिक निगम, खंडवा, जिला खंडवा.	पार्षद	25	पच्चीस	वेदप्रकाश शर्मा (वेदू भैया)	भारतीय जनता पार्टी
27		पार्षद	26	छब्बीस	दिनेश पवार (दीना)	भारतीय जनता पार्टी
28		पार्षद	27	सत्ताईस	रामगोपाल	भारतीय जनता पार्टी
29		पार्षद	28	अट्ठाईस	तारा नन्दलाल "नंदू शर्मा"	भारतीय जनता पार्टी
30		पार्षद	29	उन्तीस	कु. शारदा गोपालराव आव्हाड	भारतीय जनता पार्टी
31		पार्षद	30	तीस	राखी अनिल पाटिल	भारतीय जनता पार्टी
32		पार्षद	31	इकतीस	आशीष (अमर) हुकुमचंद यादव	भारतीय जनता पार्टी
33		पार्षद	32	बत्तीस	राजेश यादव	निर्दलीय
34		पार्षद	33	तैंतीस	वर्षा संदेश गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
35		पार्षद	34	चौंतीस	निलेश निदाने	भारतीय जनता पार्टी
36		पार्षद	35	पैंतीस	रिचा निकेतन गुर्जर	भारतीय जनता पार्टी
37		पार्षद	36	छत्तीस	मो. आसिम पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
38		पार्षद	37	सैंतीस	विक्रम सहजवानी उर्फ काली भैया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
39		पार्षद	38	अड़तीस	सागर अनिल आरतानी	भारतीय जनता पार्टी
40		पार्षद	39	उन्तालीस	अनिशा खालिक पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
41		पार्षद	40	चालीस	शेख रियाज शेख वहीद (मार्शल)	भारतीय जनता पार्टी
42		पार्षद	41	इकतालीस	सिद्दीक पटेल	निर्दलीय
43		पार्षद	42	बयालीस	शिवराज मेहता (शिवा)	भारतीय जनता पार्टी
44		पार्षद	43	तैंतालीस	सुनीता दिलीप यादव	भारतीय जनता पार्टी
45		पार्षद	44	चौवालीस	सीमाबाई बावरे	भारतीय जनता पार्टी
46		पार्षद	45	पैंतालीस	अब्दुल अज़ीज़ (अज्जू पहलवान)	भारतीय जनता पार्टी
47		पार्षद	46	छियालीस	किरण जामने	भारतीय जनता पार्टी
48		पार्षद	47	सैंतालीस	अमित विरेन्द्र मिश्रा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
49		पार्षद	48	अड़तालीस	रत्ना राजू राठौर	भारतीय जनता पार्टी
50		पार्षद	49	उनन्चास	दीपा राजेश सोनी	भारतीय जनता पार्टी
51		पार्षद	50	पचास	शिवानी चांडक	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1520.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 22 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिक निगम, रतलाम, जिला रतलाम के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति महापौर / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिक निगम का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् महापौर/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल	क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)	(7)
1	नगरपालिक निगम, रतलाम जिला रतलाम.	महापौर	-	-	डॉ. सुनीता यार्दे	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	श्रीमती भावना हितेश पेमाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	ताराचंद पंचोनिया	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	भगत सिंह भदौरिया	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	सोनु सिंह	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	इन्दु अनिल गोखरू	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	सोना शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	प्रहलाद पटेल (जाट)	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	श्रीमति सीमा टाक	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	पप्पू पुरोहित	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	बाबूलाल गरवाल	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	मनीषा मनोज शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	अरुण राव	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	नीरज परमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	सूरज सिंह जाट	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	श्यामा बाई वर्मा (काकी)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
17		पार्षद	16	सोलह	श्रीमति निर्मला मनोहरलाल पटेल	निर्दलीय
18		पार्षद	17	सत्रह	अनीता कटारा	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अट्ठारह	श्रीमति चंदा सोनी (राजू सोनी)	निर्दलीय
20		पार्षद	19	उन्नीस	अशोक पोरवाल	भारतीय जनता पार्टी
21		पार्षद	20	बीस	महेंद्र सिंह चन्द्रावत (डिस्क वाले)	निर्दलीय
22		पार्षद	21	इक्कीस	सुशील सिलावट	भारतीय जनता पार्टी
23		पार्षद	22	बाईस	केलाशीबाई मीणा	भारतीय जनता पार्टी
24		पार्षद	23	तेईस	विजय लक्ष्मी विनोद राठौर	निर्दलीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25	नगरपालिक निगम, रतलाम जिला रतलाम.	पार्षद	24	चौबीस	यासमीन शेरानी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
26		पार्षद	25	पच्चीस	पंकज पडिहार (बंटी)	निर्दलीय
27		पार्षद	26	छब्बीस	मंगल विश्वमोहन लोढ़ा	भारतीय जनता पार्टी
28		पार्षद	27	सत्ताईस	मोहम्मद सलीम मेव	भारतीय जनता पार्टी
29		पार्षद	28	अट्ठाईस	रजनीकान्त व्यास	इंडियन नेशनल कांग्रेस
30		पार्षद	29	उन्तीस	श्रीमती सुशीला परमार	भारतीय जनता पार्टी
31		पार्षद	30	तीस	मुबारिक आर. आर. खान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
32		पार्षद	31	इकतीस	ममता नरेन्द्र बोरासी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
33		पार्षद	32	बत्तीस	मीराबाई परमार	भारतीय जनता पार्टी
34		पार्षद	33	तैंतीस	अशोक यादव	भारतीय जनता पार्टी
35		पार्षद	34	चौंतीस	रेखा रवि जौहरी	भारतीय जनता पार्टी
36		पार्षद	35	पैंतीस	शांतीलाल वर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
37		पार्षद	36	छत्तीस	रणजीत सिंह परिहार	भारतीय जनता पार्टी
38		पार्षद	37	सैंतीस	रजीया बी शहजाद खॉ	इंडियन नेशनल कांग्रेस
39		पार्षद	38	अड़तीस	रिहाना वाहिद शेरानी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
40		पार्षद	39	उन्चालीस	साबीर हुसैन	निर्दलीय
41		पार्षद	40	चालीस	मोनिक्का गोपाल सोनी	भारतीय जनता पार्टी
42		पार्षद	41	इकतालीस	मीना बालमुकुंद चावडॉ	भारतीय जनता पार्टी
43		पार्षद	42	बयालीस	माला आशोक शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
44		पार्षद	43	तैंतालीस	प्रेम उपाध्याय	भारतीय जनता पार्टी
45		पार्षद	44	चौवालीस	जाकीर हुसैन रावटीवाला	भारतीय जनता पार्टी
46		पार्षद	45	पैंतालीस	ललीता नंदकिशोर पवारं	भारतीय जनता पार्टी
47		पार्षद	46	छियालीस	नजमा ईक्का बेलुत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
48		पार्षद	47	सैंतालीस	ताहेरा नासीर कुरेशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
49		पार्षद	48	अड़तालीस	लता खीची	भारतीय जनता पार्टी
50		पार्षद	49	उन्नचास	चन्द्रप्रकाश पुरोहित 'चान्दु'	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1521.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 22 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिक निगम, सिंगरौली, जिला सिंगरौली के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति महापौर / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिक निगम का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् महापौर/ पार्षद	वार्ड क्रमांक	केवल पार्षद हेतु अंकों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिक निगम, सिंगरौली, जिला सिंगरौली.	महापौर	-	-	प्रेमवती खैरवार	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	जनकधारी सिंह गोड़	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	ठाकुर प्रसाद सिंह	बहुजन समाज पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	रूपा झा	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	विमल कुमार गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	रीता गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	अनारकली	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	मुनिया देवी	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	परमेश्वर पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	सीमा तिवारी	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	शांति देवी	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	अफसरी हक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	सुषमा सुरीन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	भानुमती सिंह कुशवाहा	बहुजन समाज पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	सरोज सिंह	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	मानमती कुशवाहा	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	राजमती देवी	निर्दलीय
18		पार्षद	17	सत्रह	हर्ष अरुण	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अठारह	बिमल सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
20		पार्षद	19	उन्नीस	देवेश पाण्डेय पिता पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डेय	भारतीय जनता पार्टी
21		पार्षद	20	बीस	संगीता	बहुजन समाज पार्टी
22		पार्षद	21	इक्कीस	शान्ति पति कमलेश कुमार	भारतीय जनता पार्टी



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	नगरपालिक निगम, सिंगरौली, जिला सिंगरौली.	पार्षद	22	बाईस	उर्मिला देवी	भारतीय जनता पार्टी
24		पार्षद	23	तेईस	विजय कुमार वर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
25		पार्षद	24	चौबीस	राजेश कुमार सिंह पिता पृथ्वीराज सिंह	भारतीय जनता पार्टी
26		पार्षद	25	पच्चीस	लालचन्द कुशवाहा	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)
27		पार्षद	26	छब्बीस	रामरक्षा यादव	भारतीय जनता पार्टी
28		पार्षद	27	सत्ताईस	भगत सिंह	निर्दलीय
29		पार्षद	28	अट्ठाईस	लगनधारी	बहुजन समाज पार्टी
30		पार्षद	29	उन्तीस	पुष्पेन्द्र प्रसाद शाह	भारतीय जनता पार्टी
31		पार्षद	30	तीस	रामसागर शाह	बहुजन समाज पार्टी
32		पार्षद	31	इकतीस	चन्द्रप्रताप विश्वकर्मा 'चन्दे'	भारतीय जनता पार्टी
33		पार्षद	32	बत्तीस	विनिता कुशवाहा	भारतीय जनता पार्टी
34		पार्षद	33	तैंतीस	उमेश कुमार पिता गुलाब	भारतीय जनता पार्टी
35		पार्षद	34	चौंतीस	पूनम सिंह	भारतीय जनता पार्टी
36		पार्षद	35	पैंतीस	विमला देवी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
37		पार्षद	36	छत्तीस	कुमारी आशा पिता रेवतीरवण पाण्डेय	भारतीय जनता पार्टी
38		पार्षद	37	सैंतीस	हीरालाल	बहुजन समाज पार्टी
39		पार्षद	38	अड़तीस	सुनीता शाह	भारतीय जनता पार्टी
40		पार्षद	39	उन्तालीस	मधु शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
41		पार्षद	40	चालीस	संजीव अग्रवाल पिता श्यामसुन्दर मारवाडी	भारतीय जनता पार्टी
42		पार्षद	41	इकतालीस	हीरालाल सोनी उर्फ (सोढई) पिता श्री नंदलाल सोनी	निर्दलीय
43		पार्षद	42	बयालीस	रमाशंकर शाह	भारतीय जनता पार्टी
44		पार्षद	43	तैतालीस	स्नेहलता पाण्डेय	भारतीय जनता पार्टी
45		पार्षद	44	चवालीस	देवेन्द्र नाथ शुक्ल पिता रामानुग्रह शुक्ल	भारतीय जनता पार्टी
46		पार्षद	45	पैंतालीस	मुधुनी पति रामजी	बहुजन समाज पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.